



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 127] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 18, 1983/फाल्गुन 27, 1904
No. 127] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 18, 1983/PHALGUNA 27, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय
(नागरिक पूर्ति विभाग)
अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1983

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 18th March, 1983

का. खा. 182(अ).—केन्द्रीय सरकार, वायदा बाजार आयोग के परामर्श से सेन्ट्रल इंडिया कमर्शियल एक्सचेंज, ग्वालियर द्वारा, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन मान्यता के नवीकरण के लिए किए गए आवेदन पर विचार करके और अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में होगा, उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त एक्सचेंज को गुरु में अग्रिम संविदा की बाबत 18 मार्च, 1983 से 17 मार्च, 1984 तक (जिसमें ये दोनों दिन सम्मिलित हैं) की एक वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2. इसको द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन रहते हुए है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिये जायें।

S.O. 182(E).—The Central Government having considered in consultation with Forward Markets Commission, the application for the renewal of recognition made under section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Central India Commercial Exchange Ltd., Gwalior and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, recognition to the said exchange for a period of one year from 18th March, 1983 to 17th March, 1984 (both days inclusive) in respect of forward contracts in Gur.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said exchange shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[मिसिल सं. 12(3)/आई.टी./82]

[F. No. 12(3)-IT/82]

का. अ. 183(अ).—केन्द्रीय सरकार, वायदा बाजार आयोग के परामर्श से कानपुर कमोडिटी एक्सचेंज लि., कानपुर द्वारा, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन मान्यता के नवीकरण के लिए किए गए आवेदन पर विचार करके और अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में होगा, उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त एक्सचेंज को गुरु में अग्रिम संविदा की बाबत 18 मार्च, 1983 से 17 मार्च, 1984 तक (जिसमें ये दोनों दिन सम्मिलित हैं) की एक वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2. इसके द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन रहते हुए है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निदेश का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिये जायें।

[मिसिल सं. 12(3)/आई.टी. /82]

इन्द्र मोहन सहाय, संयुक्त सचिव

S.O. 183(E).—The Central Government having considered in consultation with Forward Markets Commission, the application for the renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Kanpur Commodity Exchange Ltd., Kanpur and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said exchange for a period of one year from 18th March, 1983 to 17th March, 1984 (both days inclusive) in respect of forward contracts in Gur.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said exchange shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(3)/I.T./82]

I. M. SAHA Jt. Secy